

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21—फरवरी 27, 2015 (फाल्गुन 2, 1936)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21—FEBRUARY 27, 2015 (PHALGUNA 2, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. ए. 38012/01/2014-प्रशासन-II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत श्री जय प्रकाश, वरिष्ठ सम्पदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक- 31/01/2015 (31 जनवरी 2015) के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आलोक कुमार दीक्षित
अवर सचिव (प्रशासन-2)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2015

सं. डी.एक. 17/2014-कार्मिक.डी.ए.आठ—एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय के पत्र संख्या 1-17018/Estt-I/726/NDRF/ 2014/8070 दिनांक 17/07/2014 और MHA नोटि दिनांक 06/08/2014 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों का एन.डी.आर.एफ.

बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर 05 वर्षों के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप अधिकारियों की सेवाएँ उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से महानिदेशक एन.डी.आर.एफ. के निपटान (DISPOSAL) पर रहेंगी:-

क्रम सं.	ईरला	अधिकारी का नाम (सर्वश्री) एवं रैंक	बटा0/सैक्टर	दिनांक/अपराह्न
01	8504	धर्मेन्द्र नारायण सिंह सहायक कमान्डेन्ट	193 बटालियन केरिपुबल	01/09/2014 (अप.)
02	8122	हिमांशु बदोला सहायक कमान्डेन्ट	203 कोबरा बटालियन केरिपुबल	15/10/2014 (अप.)
03	8601	कुमार राघवेन्द्रा सहायक कमान्डेन्ट	202 कोबरा बटालियन केरिपुबल	31/12/2014 (अप.)

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. ओ.दो-3681/2015-कार्मिक-डी.ए.-1-भारत सरकार ने श्री के. दुर्गा प्रसाद, भा0पु0से0 (ए.पी. : 81) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में रु0 75,500-80,000/- के वेतन स्केल में विशेष महानिदेशक के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) की तिथि 28/02/2017 तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने विशेष महानिदेशक, के.रि.पु. बल का कार्यभार दिनांक 29/01/2015 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 2 फरवरी 2015

सं. डी.एक. 04/2014-कार्मिक-डी.ए.आठ-उप निदेशक (स्थापना) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के ज्ञापन संख्या 15011/10/2014-Estt दिनांक 24.11.2014 के तहत श्री रविन्द्र एम. एल. कमान्डेन्ट (इरला-3583), अकादमी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कादेरपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, में सहायक निदेशक (Tactics) के पद पर 01 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 01.01.2015 (अप.) से निदेशक सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद पर रहेंगी।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या: डी.एक. 12/2013-कार्मिक-डी.ए.आठ-संयुक्त सचिव (गृह विभाग) UT Puducherry आदेश संख्या G.O.Ms.No.16 दिनांक 24.02.2014 के तहत श्री के. प्रतापा चन्द्रन्, सहायक कमान्डेन्ट (इरला-7392), 18 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के आइ.आर. बटालियन (IR Bn) Puducherry, में उप कमान्डर के पद पर 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 04.12.2014(अप0) से कमान्डेन्ट आइ.आर. बटालियन (IR Bn) मुख्यालय, Puducherry (disposal) पर रहेंगी।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं0 ई-16013/(1)भापुसे(विनयतोष)/2009/कार्मिक-2/51-राष्ट्रपति, श्री विनयतोष मिश्रा, भा.पु.से.(उडीसा.1993) को महानिरीक्षक पद में पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 05/01/2015 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन बैंड-4 रु0 37400-67000 + रु0 10000/- ग्रेड वेतन में नियुक्त करते हैं।

अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर दिनांक 05/01/2015 (पूर्वाह्न) को महानिरीक्षक (मुख्यालय), के.ओ.सुब, मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 3 फरवरी 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

सर्वश्री

अब्दुल हकीम
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

31.01.2015 (अपराहन) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. 5/1/2014-सी.पी.आई.—दिसम्बर, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 253 (दो सौ तिरपन) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400085, दिनांक 4 फरवरी 2015

सं. पीडी/7(22)/2010/भर्ती-IV/(एसओ/जी)/1365—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री सोपान सुरेश पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'एफ' पे बैंड ₹ 37400-67000 + ग्रेड पे ₹ 8700 को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'जी' के पद पर पे बैंड ₹ 37400-67000 + ग्रेड पे ₹ 8900 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2010 के पूर्वाहन से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम.व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई- 400001, दिनांक 22 जनवरी 2015

सं. ईसी-1 (1)/15/919 - राष्ट्रपति, वर्ष 2015 हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग (ईसी) का निम्नानुसार गठन करते हैं :

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | डॉ. रतन कुमार सिन्हा
सचिव, भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग | - | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | श्री नृपेन्द्र मिश्रा
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | - | सदस्य |
| 3. | श्री अजित कुमार डोवाल
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | - | सदस्य |
| 4. | श्री अजित कुमार सेठ
मंत्रिमंडल सचिव | - | सदस्य |

5.	श्रीमती सुजाता सिंह विदेश सचिव	-	सदस्य
6.	श्री रतन पी. वाटल सचिव, व्यय विभाग	-	सदस्य
7.	श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन सचिव, भारत सरकार	-	सदस्य (वित्त)
8.	डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन पूर्व अध्यक्ष, एईसी	-	सदस्य
9.	प्रो. पी. रामा राव पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
10.	डॉ. अनिल काकोडकर पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं पञ्चवि होमी भाभा चेयर प्रोफेसर	-	सदस्य
11.	डॉ. आर. बी. गोवर कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय अनुसंधान तथा पञ्चवि होमी भाभा चेयर प्रोफेसर	-	सदस्य
12.	श्री शेखर बसु निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र	-	सदस्य
13.	डॉ. के. कस्तुरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग एवं पूर्व सदस्य, योजना आयोग	-	सदस्य

अरूण श्रीवास्तव
सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 3 फरवरी 2015

सं. 21/11(2)/2012-सीसीएस/1378—राष्ट्रपति, इस विभाग के संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (पीबी-3 ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600), श्री पी.वी. जयप्रकाश को दिनांक 12.01.2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक इस विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई में आंतरिक वित्त सलाहकार (पीबी-4 ₹ 37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 5 फरवरी 2015

सं०: 560(3)/7279—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	ड्रेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC029011	C21220884
2	त्रिन्दा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड	U15132UP1999PTC024780	C21303508

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
3	संदीप इन्फालाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U60231UP2011PTC043928	C21868831
4	टीट्रंच एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2011PTC047967	C30159727
5	रायल रेडी मिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC055653	C36907665
6	पालिस्टार मल्टीरिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2013PTC054545	C37505153
7	सर्वश्रेष्ठ कान्ट्रेक्टर्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2008PTC034820	C37547445
8	चेतना कलाथिंग प्राइवेट लिमिटेड	U18109UP2008PTC035511	C37577921
9	उर्वशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52300UP2008PTC034641	C37687225
10	सनकृष्णा इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044032	C37697489
11	ब्रध्दिमा मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044876	C37885019
12	जे एन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028724	C37901535
13	परलैब पालीसैक्स प्राइवेट लिमिटेड	U25203UP2008PTC034952	C37947033
14	समर्पन इन्व्हेस्टमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड	U45400UP2012PLC049953	C38002242
15	सासा सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029609	C38048880
16	एग्रोहा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC051707	C38260618
17	दीपिका इन्फ्राहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053287	C38268793
18	वाइस आफ आगरा मीडिया इन्टरटैमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053954	C38275517
19	स्काई कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046510	C38299590
20	गुरुकृपा फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044033	C38382610
21	एनएलजी मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	U40300UP2007PTC033171	C38375804
22	रियल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2005PTC030017	C38444147
23	आगरा बुलियन प्राइवेट लिमिटेड	U36911UP2003PTC027496	C38462875
24	विनायक इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC044588	C38466892
25	आरकाइड क्लब रिसार्ट एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2010PTC040125	C38468849
26	टी इलेविन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046061	C38483939
27	एस पी के इडबिल आयल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC040121	C38485769
28	एश्वोर लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2006PLC032592	C38535498
29	एक्सटेकसर्व कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72100UP2013PTC059961	C38548798
30	दा बीपीओ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2013PTC060401	C38623195
31	एक्वा सोल केमिकल्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U15543UP2005PTC029562	C38788436
32	श्रीनाथजी कृपा इन्फ्राप्लानर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC056643	C38820585
33	कैपिटल आरगैनिक्फूड्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2007PTC033758	C38848040
34	एम एन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	U80903UP2010PTC040883	C39036009
35	जोयोअस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2009PTC039065	C39058425
36	केएमपी बीवेरेजिस प्राइवेट लिमिटेड	U27101UP1996PTC020670	C39084595
37	शिव शक्ति इन्ट्रीप्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC050870	C39146139

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
38	एसटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC052299	C39224167
39	जीवन ज्योति ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051072	C39288154
40	स्काईझीम्स टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049483	C39338249
41	ड्रीम बीजन मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049527	C39489596
42	देवरिले साफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC036686	C39545900
43	एवीएस आटोफैब प्राइवेट लिमिटेड	U34200UP2012PTC050514	C39614797
44	टाइटेनिक मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044934	C39661426
45	गामा इन्फोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2008PTC036381	C39664156
46	प्लैनेट ई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U52603UP2010PTC042966	C39674957
47	महेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP1993PTC015404	C39738919
48	एम एण्ड टी फ्यूचरिस्टिक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PTC061360	C39740089
49	ग्लिम नेटमार्क प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041953	C39740717
50	टीका टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड	U93090UP2007PTC033058	C39748397
51	शिवशक्ति आटोजोन प्राइवेट लिमिटेड	U50102UP2011PTC044340	C39776976
52	राकेश एकरीवाला इन्जीनियर्स एण्ड एडजस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP1998PTC023600	C39854070
53	शांतीविजय डायमंड प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP1989PTC010431	C39876750
54	श्री इलाक्षी ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053228	C39886437
55	अन्वेषिका मीडिया सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046618	C39899745
56	कानपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	U17291UP2011PTC045047	C39923123
57	टीसी आटोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U50102UP2012PTC050303	C39937917
58	बेदी सक्सेना इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67110UP1996PTC020261	C39992482
59	आरगैनिक एग्रीकल्चरल प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2009PTC037735	C40144255
60	माया कोल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U10102UP1997PTC022362	C40242042
61	यूकेएस एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2009PTC038845	C40251258
62	एथनिक हरबल्स प्राइवेट लिमिटेड	U36912UP2012PTC050922	C40338386
63	हर्ष डिटेक्टिव एण्ड सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC052256	C40350191
64	मिलात इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC049610	C40491342
65	राधे सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC040780	C40543142
66	जयथी इश्योरेस कंसल्टेंट एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U66000UP2009PTC037561	C40650178
67	पीकेआर डवेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058874	C40662868
68	वीपी इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058885	C40660334
69	देवशक्ति रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058871	C40655185
70	यूवीजी फारेक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2014PTC062317	C40743320
71	चेतना लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2011PTC045083	C40778722
72	रायल डवेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2008PTC036217	C40910457

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
73	टर्सी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050421	C41091638
74	गनेशकार्तिकेय प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PLC057296	C41141615

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2015

सं. आरओ सी/560 (5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	32505	सैवन सी नैटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2	23681	फन टाईम मार्किटिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	32503	क्रैस्ट फिनमैन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
4	34322	केशवा डिवेलपर्स एंड सप्लायर्स लिमिटेड
5	32377	आईटेक्स सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	33224	नैक्स्ट कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	24355	ओरबिट पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
8	24947	प्राशान्त वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	34788	जीनस91 टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
10	34100	आई.बी.टी. एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
11	31319	बिग फोरच्यून इमिग्रेशन सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड
12	21872	निरंकार सिंह एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	28265	रिची एयर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	34856	लोबस्टर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
15	33639	बाइट्स टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
16	31846	बोन वोयेज स्टडी एंड मार्गेशन अबरोड प्राइवेट लिमिटेड
17	33572	इंफोवैल सोफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	31281	अलोपट टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
19	34723	क्यू सी मॉल आई केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
20	34721	क्यू सी मॉल हेल्थ क्लब प्राइवेट लिमिटेड
21	34722	क्यू सी मॉल मैडीकल आफिसर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	34720	क्यू सी मॉल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
23	31705	क्वार्क सिटी मॉल डिवैल्वमेंट प्राइवेट लिमिटेड
24	28098	क्वार्क सिटी सोफ्टवेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
25	31295	रोहो टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
26	31344	ऑवरसीज प्रोफ़ेशनल एजुकेशनल कन्सलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
27	29635	भांगो कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
28	34381	साई टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
29	32652	गोयल मल्टीमैटल्स प्राईवेट लिमिटेड
30	31818	कैले एजुकेशनल कन्सलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
31	31619	सोल्यूसन्स एहैड मैडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
32	28424	श्री गुरदेव पोरट्रेट्स लिमिटेड
33	29540	सोडी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
34	34106	सीलाईन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
35	31371	ड्रीम वैब पेजिज प्राईवेट लिमिटेड
36	36238	बाहिया एम्यूजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
37	34441	जिंदल इंफ्राबिज लिमिटेड
38	35279	ऑटोमैक स्क्रिलस प्राईवेट लिमिटेड
39	10820	आर बी चेन्स प्राईवेट लिमिटेड
40	05471	जसकरण डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
41	32985	सीता प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
42	31333	केयरवेल फाईनेनशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
43	34428	रोलर एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
44	34515	उजागर लेमिबोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
45	32005	ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड इमिग्रेशन कन्सलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
46	23693	जी आर डी एनवीरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
47	33106	क्रिएटिव कैटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
48	34352	एसपीसी आईटी सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड
49	37144	थॉट एप्पस प्राईवेट लिमिटेड
50	31106	नासिंस बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
51	33200	सैफ्ट सिंधू ऑवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
52	28731	आरो मल्टीलेवल मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
53	14952	हिमानी मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
54	30250	जतिन्द्र पाल चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
55	35643	अमृतसर लीजर प्राईवेट लिमिटेड
56	31866	रॉयल स्टडी अबरोड एंड कन्सलटैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
57	34981	माधव इंफ्राबिज लिमिटेड

विलास गजानन निपाने
सह रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चन्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012 दिनांक 21 जनवरी, 2015

सं: आरओसी/जम्मू/560(5)/एफ.टी.ई-2014-15 -कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये गये हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	यु45400जेके2011पीटीसी003314	मैसर्ज आर एन आर प्रोपकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2.	यु40102जेके2009पीटीसी003068	मैसर्ज लद्रदाख इको-टेक प्राइवेट लिमिटेड
3.	यु26941जेके1995पीटीसी001436	मैसर्ज त्रिशूल एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
4.	यु72900जेके2009पीटीसी003003	मैसर्ज विनसम इन्फोसलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	यु51900जेके2009पीटीसी003001	मैसर्ज ए आर वी मार्कीटिंग सलूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6.	यु72900जेके2010पीटीसी003239	मैसर्ज अपलाईड प्रफॉर्मैन्स सलूशन्स कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
7.	यु15549जेके2012पीटीसी003750	मैसर्ज एन जी मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	यु72900जेके2010पीटीसी003194	मैसर्ज हैलक्स इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रोसोफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
9.	यु19129जेके2000पीटीसी002089	मैसर्ज आधुनिक लैदर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक: 23 जनवरी 2015

सं. 3(161)/560(5)/2015-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2774	बिल्लिंग आंड रेवेन्यू मनगेमेन्त कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	2307	केन लब डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
3	2549	सकती अग्रो इंडूस्ट्रिएस प्राइवेट लिमिटेड
4	2232	न.एम. टाकला मकान प्राइवेट लिमिटेड

सी.म. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 27 जनवरी 2015

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/5553-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
01	15-011501	मेसर्स ए पी आर् टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
02	15-006838	मेसर्स कोनार्क कोकोनट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
03	15-009591	मेसर्स कोस्टाल प्रोजेक्ट्स एनड इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
04	15-015381	मेसर्स प्रीमेक्स रीफ़ाक्टरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
05	15-006567	मेसर्स प्रीया माइनीन्ग् कन्सलटान्सी सर्विसेस् प्राईवेट लिमिटेड
06	15-003782	मेसर्स बेनोरी आक्यूकलचर् प्राईवेट लिमिटेड
07	15-007037	मेसर्स एन् ओ पी इन्जीनीअरिन्ग् कन्सलटान्टस् प्राईवेट लिमिटेड
08	15-010048	मेसर्स एक्सट्रालाइफ़ कन्सलटान्सी प्राईवेट लिमिटेड
09	15-006967	मेसर्स एस् एन् टालेन्ट् सर्च प्राईवेट लिमिटेड
10	15-004430	मेसर्स व्लेज् मेटाल्स् एनड् आलोइज् प्राईवेट लिमिटेड
11	15-014378	मेसर्स डेल्टा हाउसिन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
12	15-006655	मेसर्स मीकाडो कन्सलटान्ग् प्राईवेट लिमिटेड
13	15-011515	मेसर्स वायोक्लीनिका प्राईवेट लिमिटेड
14	15-017400	मेसर्स टर्क हेल्थकेयार् प्राईवेट लिमिटेड
15	15-004192	मेसर्स स्वाधिन् मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
16	15-006425	मेसर्स एन् के मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17	15-007800	मेसर्स रेक्सन् ग्रीक्स् प्राईवेट लिमिटेड
18	15-007908	मेसर्स रेक्सन् आइरन् ओर् बेनेफिकेसन् एनड् पेल्लेट् प्रोजेक्टस् प्राईवेट लिमिटेड
19	15-007903	मेसर्स रेक्सन् स्टील् एनड् पावार् प्राईवेट लिमिटेड
20	15-004852	मेसर्स जी. एम्. अटोमोबाइल्स् प्राईवेट लिमिटेड
21	15-004363	मेसर्स आनन्द् अटोमोबाइल्स् प्राईवेट लिमिटेड
22	15-005003	मेसर्स आनन्द् मोटर् प्राईवेट लिमिटेड
23	15-018057	मेसर्स बरगड् अटो प्राईवेट लिमिटेड
24	15-015822	मेसर्स आपोलो इन्फ़ाकन् प्राईवेट लिमिटेड
25	15-006761	मेसर्स नीड्स् कन्सलटान्टस् प्राईवेट लिमिटेड
26	15-006784	मेसर्स इम्पेल् सीक्युरिटी एनड् आलाइड् सर्विसेस् प्राईवेट लिमिटेड
27	15-007328	मेसर्स बायोमान् फार्मास्युटीकाल्स् प्राईवेट लिमिटेड
28	15-015692	मेसर्स साईसुती रीकभरी एनड् हुमान् रिसोर्सेस् प्राईवेट लिमिटेड
29	15-003062	मेसर्स सुर्य नर्सरी प्राईवेट लिमिटेड
30	15-006731	मेसर्स एलिक्सीर् सल्युसन्स् प्राईवेट लिमिटेड
31	15-015278	मेसर्स बसुधा निर्माण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
32	15-002967	मेसर्स श्री पीगुमेन्टस् प्राईवेट लिमिटेड
33	15-002936	मेसर्स लाला कास्यु को प्राईवेट लिमिटेड
34	15-015175	मेसर्स इन्डिआन् टीटानियम् प्रोडक्टस् लिमिटेड
35	15-009563	मेसर्स जी बायोनेक्स् सिडस् प्राईवेट लिमिटेड
36	15-013514	मेसर्स पीरामिड् इस्टकन् प्राईवेट लिमिटेड
37	15-007262	मेसर्स एक्सपोफ्रेस् एक्सपोर्टस् प्राईवेट लिमिटेड
38	15-008140	मेसर्स सन्तोसी एस्टेटस् एनड् इन्जिनिअर्स प्राईवेट लिमिटेड

बी मिश्र
कम्पनी रजिष्ट्रार
ओडिशा

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 30th January 2015

No.A-38012/01/2014-Admn.II—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Sh. Jai Prakash, Senior Estates Manager & Meeting Officer in the office of the Union Public Service Commission stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31/01/2015 (31st January, 2015).

ALOK KUMAR DIXIT
Under Secy. (Admn.II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF
New Delhi, the 19th January 2015

No.D.I.17/2014-Pers-DA-8—Consequent on their selection for deputation to NDRF Bns as Asstt. Comdt (GD) for a period of five years vide NDRF HQr letter No.1-17018/Estt-I/726/NDRF/2014/8070 dated 17/07/2014 and approval accorded by MHA vide their noting dated 06/08/2014, services of following officers are placed at the disposal of DG NDRF from the date shown against each:-

Sl. No.	IRLA No.	Rank & Name (S/Shri)	Unit/Sector	Date of relief from CRPF.
01.	8504	Dharmendra Narayan Singh	193 Bn	01/09/2014 (AN)
02.	8122	Himanshu Badola	203 CoBRA Bn	15/10/2014 (AN)
03.	8601	Kumar Raghvendra	202 CoBRA Bn	31/12/2014 (AN)

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 30th January 2015

No. O.II-3681/2015-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri K. Durga Prasad, IPS (AP : 81) as Special Director General (Spl. DG) in CRPF in the Pay scale of Rs. 75,500—80,000/- with effect from the date of taking over the charge of the post and till the date of his superannuation i.e. 28/02/2017 or till further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Special Director General, CRPF on the forenoon of 29/01/2015.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 2nd February 2015

No.D.I.42014- Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Assistant Director (Tactics) in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Pay Scale of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8700/- on deputation basis for a period of one year as per existing terms and conditions of deputation vide Deputy Director(Estt) SVP NPA Memorandum No. 15011/10/2014-Estt dated 24/11/2014, services in respect of Shri Ravindra M.L. Commandant(IRLA-3583) of CRPF Academy, Kadarapur is placed at the disposal of Director, SVP NPA Hyderabad, w.e.f. 01/01/2015 (AN).

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No.D.I.12/2013- Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Deputy Commandant in India Reserve Battalion (IR Bn) Puducherry on deputation basis for a period of three years as per existing terms and conditions of deputation vide Joint Secretary (Home Department) UT Puducherry Order No. G.O.Ms.No.16 dated 24/02/2014, services in respect of Shri K Prathapa Chandran, Asstt. Comdt (IRLA-7392) of 18 Bn, CRPF is placed at the disposal of Commandant IR Bn, Puducherry, w.e.f. 04/12/2014 (AN).

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi-110 003, th 7th January 2015

No.E-16013(1)VM/09/Pers-II/51—The President is pleased to appoint Shri Vinaytosh Mishra, IPS (OR: 1993) as Inspector General, Central Industrial Security Force, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000 with Grade Pay Rs.10,000/- on promotion. The officer has assumed the charge of IG/ HQ CISF HQrs., New Delhi with effect from the forenoon of 05.01.2015.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), RAJASTHAN
Jaipur, the 3rd February 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122 /2014/—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government Service from the date shown against his name:

S/Shri

Abdul Hakim
Assistant Audit Officer

Retired on superannuation wef. 31.01.2015 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 30th January 2015

No. 5/1/2014-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 remained stationary at 253 (two hundred fifty three) for the month of December, 2014.

S. S. NEGI,
Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
Mumbai-85, the 4th February 2015

No. PD/7(22)/2010-R-IV/SO(G)/1365—The President is pleased to appoint Shri Sopan Suresh Pande, Scientific Officer/Engineer Grade 'F' pay band Rs. 37400—67000/- + grade pay Rs. 8700/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the pay band of Rs. 37400—67000/- + grade pay Rs. 8900/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2010, in an officiating capacity, until further orders.

M.V. SREEDHARAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
Mumbai 400001, the 22nd January 2015

No.AEC-1(1)/15/919—The President is pleased to constitute the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2015 as given below.

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Dr. Ratan Kumar Sinha
Secretary to the Government of India
Department of Atomic Energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. | Shri Nripendra Misra
Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 3. | Shri Ajit Kumar Doval
National Security Advisor | Member |
| 4. | Shri Ajit Kumar Seth
Cabinet Secretary | Member |

5.	Smt. Sujatha Singh Foreign Secretary	Member
6.	Shri Ratan P. Watal Secretary, Department of Expenditure	Member
7.	Shri Sudarsanam Srinivasan Secretary to the Government of India	Member for Finance
8.	Dr. M.R. Srinivasan Former Chairman, AEC	Member
9.	Prof. P. Rama Rao Former Secretary, Dept. of Science & Technology	Member
10.	Dr. Anil Kakodkar Former Chairman, AEC & DAE Homi Bhabha Chair Professor	Member
11.	Dr. R.B. Grover Vice Chancellor, Homi Bhabha National Institute & DAE Homi Bhabha Chair Professor	Member
12.	Shri Sekhar Basu Director, Bhabha Atomic Research Centre	Member
13.	Dr. K. Kasturirangan, Former Chairman, Space Commission & Former Member, Planning Commission	Member

ARUN SRIVASTAVA
Secy. to the Atomic Energy Commission

Mumbai-400001, the 3rd February 2015

No.21/11(2)/2012-CCS/ 1378—The President is pleased to appoint Shri P.V.Jayaprakash, Joint Controller (Finance & Accounts) (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 7,600/-), Department of Atomic Energy, Mumbai as Internal Financial Adviser (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with GP Rs. 8,700/-) in Directorate of Purchase & Stores, Mumbai w.e.f. 12.01.2015 (FN) until further orders.

A.SUKUMARAN
Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS,
O/o REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act 1956 and of following Companies

KANPUR- 208001, the 5th February 2015

No.LC/560(3)/ 7279—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved: —

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	DRAKE PHARMA PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC029011	C21220884
2	VRINDA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U15132UP1999PTC024780	C21303508
3	SANDEEP INFRALOGISTICS PRIVATE LIMITED	U60231UP2011PTC043928	C21868831
4	TTROUNCE EDUTECH PRIVATE LIMITED	U80904UP2011PTC047967	C30159727
5	ROYAL READY MIX INDIA PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC055653	C36907665
6	POLESTAR MULTI RETAILS PRIVATE LIMITED	U52100UP2013PTC054545	C37505153
7	SARVSHRESHTH CONTRACTOR & ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2008PTC034820	C37547445

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
8	CHETNA CLOTHING PRIVATE LIMITED	U18109UP2008PTC035511	C37577921
9	URVASHI MARKETING PRIVATE LIMITED	U52300UP2008PTC034641	C37687225
10	SUNKRISHNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044032	C37697489
11	BRAVISM MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044876	C37885019
12	J.N. ISPAT PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028724	C37901535
13	PARLAB POLYSACKS PRIVATE LIMITED	U25203UP2008PTC034952	C37947033
14	SAMARPAN CAPITAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED	U45400UP2012PLC049953	C38002242
15	SASA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029609	C38048880
16	AGROHA HOUSING PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC051707	C38260618
17	DEEPIKA INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053287	C38268793
18	VOICE OF AGRA MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053954	C38275517
19	SKAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046510	C38299590
20	GURUKIRPAA FUNDAYS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044033	C38382610
21	NLG MINERAL PRIVATE LIMITED	U40300UP2007PTC033171	C38375804
22	REALTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200UP2005PTC030017	C38444147
23	AGRA BULLION PRIVATE LIMITED	U36911UP2003PTC027496	C38462875
24	VINAYAKA INFRAHOME PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC044588	C38466892
25	ORKIDE CLUB RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204UP2010PTC040125	C38468849
26	T ELEVEN OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046061	C38483939
27	S.P.K. EDIBLE OILS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC040121	C38485769
28	ASSURE LABORATORIES LIMITED	U24232UP2006PLC032592	C38535498
29	XTECHSERV CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U72100UP2013PTC059961	C38548798
30	DA BPO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2013PTC060401	C38623195
31	AQUA SOL CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U15543UP2005PTC029562	C38788436
32	SHRINATHJI KRIPA INFRAPLANNER PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC056643	C38820585
33	CAPITAL ORGANOFOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U15122UP2007PTC033758	C38848040
34	M.N. ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80903UP2010PTC040883	C39036009
35	JOYOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2009PTC039065	C39058425
36	KMP BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U27101UP1996PTC020670	C39084595
37	SHIV SHAKTI ENTREPRENEURS PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC050870	C39146139
38	AST INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC052299	C39224167
39	JEEVANJYOTI TRADELINKS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051072	C39288154

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
40	SKYDREAMS TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049483	C39338249
41	DREAM VISION MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049527	C39489596
42	DEVRELAY SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC036686	C39545900
43	AVS AUTOFAB PRIVATE LIMITED	U34200UP2012PTC050514	C39614797
44	TITANIC MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044934	C39661426
45	GAMA INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC036381	C39664156
46	PLANET-E MART PRIVATE LIMITED	U52603UP2010PTC042966	C39674957
47	MAHESH HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U24232UP1993PTC015404	C39738919
48	M & T FUTURESTIC INFRA PRIVATE LIMITED	U70100UP2013PTC061360	C39740089
49	GLEAM NETMART PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041953	C39740717
50	TIKA TECHNOLOGICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090UP2007PTC033058	C39748397
51	SHIVSHAKTI AUTOZONE PRIVATE LIMITED	U50102UP2011PTC044340	C39776976
52	RAKESH EEKRIWALA ENGINEERS AND ADJUSTERS PRIVATE LIMITED	U67190UP1998PTC023600	C39854070
53	SHANTIVIJAY DIAMOND PRIVATE LIMITED	U74999UP1989PTC010431	C39876750
54	SHREE ELAKSHI JEWELS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053228	C39886437
55	ANWESHIKA MEDIA CENTRE PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046618	C39899745
56	KANPUR INTEGRATED TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED	U17291UP2011PTC045047	C39923123
57	TC AUTOSALES PRIVATE LIMITED	U50102UP2012PTC050303	C39937917
58	BEDI SAXENA INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U67110UP1996PTC020261	C39992482
59	ORGANIC AGRICULTURAL PRIVATE LIMITED	U01403UP2009PTC037735	C40144255
60	MAYA COAL SALES PRIVATE LIMITED	U10102UP1997PTC022362	C40242042
61	UKS EDUCATIONAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U80904UP2009PTC038845	C40251258
62	ETHNIC HERBALS PRIVATE LIMITED	U36912UP2012PTC050922	C40338386
63	HARSH DETECTIVE AND SAFETY PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC052256	C40350191
64	MILLAT INFRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC049610	C40491342
65	RADHEY CEMENT PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC040780	C40543142
66	JAITHYE INSURANCE CONSULTANT & MARKETING PRIVATE LIMITED	U66000UP2009PTC037561	C40650178

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
67	P.K.R DWELLINGS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058874	C40662868
68	V.P. INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058885	C40660334
69	DEVSHAKTI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058871	C40655185
70	UVG FOREX SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2014PTC062317	C40743320
71	CHETANA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	U85191UP2011PTC045083	C40778722
72	ROYAL DWELLINGS & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2008PTC036217	C40910457
73	TERSE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050421	C41091638
74	GANESHKARTIKEYA PROPERTIES INDIA LIMITED	U70102UP2013PLC057296	C41141615

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand, Kanpur

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:-

Chandigarh, the 30th January 2015

No. ROC/560(5) FTE/2013----Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	32505	Sven C Network Private Limited
2.	23681	Fun Time Marketing Associates Private Limited
3.	32503	Crest Finman Capital Private Limited
4.	34322	Keshva Developers & Suppliers Limited
5.	32377	Itex Software Solutions Private Limited
6.	33224	Next Chemicals Private Limited
7.	24355	Orbit Power Systems Private Limited
8.	24947	Prashant Woollen Mills Private Limited
9.	34788	Genus91 Technologies Private Limited
10.	34100	I.B.T Education Private Limited
11.	31319	Big Fortune Immigration Services Private Limited
12.	21872	Nirankar Singh Estates Private Limited
13.	28265	Richi Air Travels Private Limited
14.	34856	Lobaster Healthcare Private Limited
15.	33639	Bytes Technologies Private Limited
16.	31846	Bon Voyage Study And Migration Abroad Private Limited
17.	33572	Infowell Softwares Private Limited
18.	31281	Aloft Technology Private Limited
19.	34723	QC Mall Eye Care Centre Private Limited
20.	34721	QC Mall Health Club Private Limited
21.	34722	QC Mall Medical Offices Private Limited
22.	34720	QC Mall Retail private Limited

S.No.	Company No	Name of the Company
23.	31705	Quarkcity Mall Development Private Limited
24.	28098	Quarkcity Software Services Private Limited
25.	31295	Roho Technology Private Limited
26.	31344	Overseas Professional Educational Consultants Private Limited
27.	29635	Bhangoo Colonizers Private Limited
28.	34381	Sai Textiles Private Limited
29.	32652	Goyal Multimetals Private Limited
30.	31818	Kailay Educational Consultants Private Limited
31.	31619	Solutions Ahead Medicare Private Limited
32.	28424	Shri Gurdev Portraits Limited
33.	29540	Sodhi Impex Private Limited
34.	34106	Sealine Impex Private Limited
35.	31371	Dream Web Pages Private Limited
36.	36238	Bahia Amusement Private Limited
37.	34441	Jindal Infrabiz Limited
38.	35279	Automak Skills Private Limited
39.	10820	R B Chains Private Limited
40.	05471	Jaskaran Distilleries Private Limited
41.	32985	Sita Promoters Private Limited
42.	31333	Carewell Financial Services Private Limited
43.	34428	Roller Advertising Private Limited
44.	34515	UjjagarLamiboards Private Limited
45.	32005	British Oxford Immigration Consultants Private Limited
46.	23693	GRD Enviro Systems Private Limited
47.	33106	Creative Caterers Private Limited
48.	34352	SPC IT Solutions Private Limited
49.	37144	Thought Apps Private Limited
50.	31106	Nascence Biotech Private Limited
51.	33200	Sapt Sindhu Overseas Private Limited
52.	28731	Aro Multilevel Marketing Private Limited
53.	14952	Himani Motels Private Limited
54.	30250	Jatinder Paul Chit Fund Private Limited
55.	35643	Amritsar Leisure Private Limited
56.	31866	Royal Study Abroad And Consultants Private Limited
57.	34981	Madhav Infrabiz Limited

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies,
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Jammu-180012, the 21st January 2015

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014-15—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies At, 1956, that the name of following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	2.	3.
1.	U45400JK2011PTC003314	M/s RNR Propcon Private Limited
2.	U40102JK2009PTC003068	M/s Ladakh Eco-Tech Private Limited
3.	U26941JK1995PTC 001436	M/s Trishul Enterprises Private Limited

1.	2.	3.
4.	U72900JK2009PTC003003	M/s Winsome Infosolutions Private Limited
5.	U51900JK2009PTC003001	M/s ARV Marketing Solutions (India) Private Limited
6.	U72900JK2010PTC 003239	M/s Applied Performance Solutions Consulting Private Limited
7.	U15549JK2012PTC003750	M/s N G Milk Products Private Limited
8.	U72900JK2010PTC003194	M/s Helix Electronics & Electrosoft Technologies Private Limited
9.	U19129JK2000PTC002089	M/s Adhunik Leather (India) Private Limited

O.P.Sharma
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 23rd January 2015

No. 3(161) / 2015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U72300PY2013PTC002774	M/s. Billing & Revenue Management Consultants Private Limited
2.	U52333PY2009PTC002307	M/s. Sakthi Agro Industries Private Limited
3.	U15490PY2011PTC002549	M/s. Cane Lab Design Private Limited
4.	U17200PY2008PTC002232	M/s. N.M. Takla Makan Private Limited

C.M. KARL MARX
Registrar of Companies,
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Cuttack-753014, the 27th January 2015

No. ROC/FTE/Sec. 560(5)/2014/5553—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:--

Sl No.	No. of comp	Name of company
01	15-011501	APR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
02	15-006838	KONARK COCONUT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
03	15-009591	COASTAL PROJECTS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
04	15-015381	PRIMEX REFRACTORIES PRIVATE LIMITED
05	15-006567	PRIYA MINING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
06	15-003782	BENORI AQUA-CULTURE PRIVATE LIMITED
07	15-007037	NOP ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
08	15-010048	XTRALIFE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
09	15-006967	SN TALENT SEARCH PRIVATE LIMITED
10	15-004430	BLAZE METALS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
11	15-014378	DELTA HOUSING PRIVATE LIMITED
12	15-006655	MIKADO CONSULTING PRIVATE LIMITED
13	15-011515	BIOCLINICA PRIVATE LIMITED
14	15-017400	TORQUE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
15	15-004192	SWADHIN MOTORS PRIVATE LIMITED

Sl No.	No. of comp	Name of company
16	15-006425	N K MOTORS PRIVATE LIMITED
17	15-007800	REXON BRICKS PRIVATE LIMITED
18	15-007908	REXON IRON ORE BENEFICIATION & PELLET PROJECTS PRIVATE LIMITED
19	15-007903	REXON STEEL AND POWER PRIVATE LIMITED
20	15-004852	G.M. AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
21	15-004363	ANAND AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
22	15-005003	ANAND MOTOR PRIVATE LIMITED
23	15-018057	BARGARH AUTO PRIVATE LIMITED
24	15-015822	APPOLO INFRACON PRIVATE LIMITED
25	15-006761	NEEDS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
26	15-006784	IMPEL SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
27	15-007328	BIOMAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
28	15-015692	SAISRUTI RECOVERY & HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED
29	15-003062	SURYA NURSERY PRIVATE LIMITED
30	15-006731	ELIXIR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	15-015278	BASUDHA NIRMAN COMPANY PRIVATE LIMITED
32	15-002967	SHREE PIGMENTS PRIVATE LIMITED
33	15-002936	LALA CASHEW CO PRIVATE LIMITED
34	15-015175	INDIAN TITANIUM PRODUCTS LIMITED
35	15-009563	JI BIONEX SEEDS PRIVATE LIMITED
36	15-013514	PYRAMID ESTCON PRIVATE LIMITED
37	15-007262	XPOFRESH EXPORTS PRIVATE LIMITED
38	15-008140	SANTOSHI ESTATES AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED

B. MISHRA
ROC-cum-OL, ODISHA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in